

कीवा ग्रेप

सीड

एक्सट्रैक्ट

डाप्स



KEVA

परंपरागत रूप से, अंगूर का
उपयोग यूरोपीय और मध्य पूर्वी
लोक चिकित्सकों द्वारा उनके
शक्तिशाली औषधीय गुणों के
लिए वर्षों से किया जाता रहा है

फलों की रानी

कई वैज्ञानिक
अध्ययनों से पता
चलता है कि
अंगूर के बीज,
अंगूर के स्वास्थ्य
लाभों का सबसे
सघन रूप है



इसका उपयोग हृदय की बीमारी, मधुमेह और कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जा सकता है

अंगूर के बीजों में मौजूद होते हैं

फलवोनोइड्स

फॉस्फोरस

पोटैशियम

मैग्नीशियम

कैल्शियम

सेलेनियम

आयरन

विटामिन्स ए, सी, बी 6

फोलिक एसिड

पॉली-फेनोलिक एंटीऑक्सिडेंट,
विटामिन, और खनिज जैसे फाइटो-
पोषक तत्वों को बढ़ावा देने वाले कई

स्वास्थ्य का भंडार

KEVA

कीवा ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट ड्रॉप्स

प्रमुख अमेरिकी अंगूरों से निकाला गया



यह प्राकृतिक स्वास्थ्य वर्धक उच्च फाइटो पोषक तत्वों का स्तर प्रदान करता है जो शरीर के सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों का समर्थन कर सकता है

KEVA



- हृदय प्रणाली
- प्रतिरक्षा प्रणाली
- पाचन तंत्र
- तंत्रिका तंत्र
- अस्थि प्रणाली
- किडनी का स्वास्थ्य
- नेत्र स्वास्थ्य



हृदय संबंधी लाभ



KEVA

- यह रक्त में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ा सकता है, जो रक्त के थक्कों को रोक सकता है और दिल के दौरों की संभावना को कम कर सकता है
- रक्त परिसंचरण में सुधार करता है
- उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है



हड्डी का स्वास्थ्य

KEVA



- कॉपर, आयरन और मैंगनीज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का अद्भुत स्रोत, जो हड्डियों के निर्माण और मजबूती में महत्वपूर्ण हैं
- ऑस्टियोपोरोसिस जैसी उम्र से संबंधित स्थितियों की शुरुआत को रोक सकता है

पाचन स्वास्थ्य

KEVA



- पुरानी कब्ज से छुटकारा दिला सकता है
- पेट में एसिडिटी, अपच और जलन को दूर करने में मदद कर सकता है

किडनी का स्वास्थ्य

KEVA



- एसिडिटी और यूरिक एसिड के स्तर को काफी हद तक कम कर सकता है जिससे गुर्दे पर तनाव और दबाव कम हो सकता है
- इसमें उच्च जल सामग्री है जो यूरिक एसिड को खत्म करने में भी मदद करता है
- शरीर से विषाक्त पदार्थों और हानिकारक रसायनों को बाहर निकालता है और इस प्रकार गुर्दे पर काम का बोझ कम करता है

नेत्र स्वास्थ्य

KEVA



- अंगूर में मौजूद फ्लेवोनोइड्स में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं, जो मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। मुक्त कण मोतियाबिंद के विकास का कारण बनते हैं
 - उम्र से संबंधित दृष्टि नुकसान और मैकलर डिजनरेशन (ऐसी समस्या जो आँखों की देखने की क्षमता को गंभीर रूप से खराब कर सकती है) को रोकता है
- नेत्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और दृष्टि संबंधी रेटिना रोगों को रोक सकता है

तंत्रिका स्वास्थ्य

KEVA



- अंगूर मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं और तंत्रिका रोगों को रोक सकते हैं
- अंगूर वृद्ध लोगों के मस्तिष्क के कार्य को भी बेहतर बना सकते हैं

कैंसर से बचाव के गुण

KEVA



- इसमें मजबूत कैंसर विरोधी गुण हैं, विशेष रूप से कोलोरेक्टल कैंसर और स्तन कैंसर की संभावना को कम करने में प्रभावी है
- कैंसर कोशिकाओं के विकास और प्रसार को दबा देता है

इम्यून हेल्थ

KEVA



- प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को बढ़ावा दे सकता है, जिसका अर्थ है जुकाम होने के साथ-साथ कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की कम संभावना

मधुमेह और दंत स्वास्थ्य

KEVA



- अंगूर के बीज का अर्क उच्च रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है, इस प्रकार मधुमेह में मदद कर सकता है



- अंगूर के बीज का अर्क दांतों की कैविटी को रोकने में मदद कर सकता है

एंटी-बैक्टीरियल गुण

KEVA



- अंगूर में मजबूत जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण हैं जो आपको संक्रमण से बचा सकते हैं
- इसमें पोलियो वायरस और हर्पीस सिम्पलेक्स वायरस (सरल परिसर्प विषाणु) के खिलाफ एंटीवायरल गुण हैं

पुरुषों का स्वास्थ्य

KEVA



- अंगूर मूत्राशय के नुकसान से रक्षा कर सकते हैं (एक बढ़े हुए प्रोस्टेट के परिणामस्वरूप), जो मूत्राशय को कमजोर कर सकता है



सेवन का तरीका

10 बूंदें सुबह और 10 बूंदें शाम को खाली पेट या भोजन से आर्ध घंटे पहले लें

बेहतर परिणाम के लिए 6-12 महीने तक जारी रखें



KEVA

संपर्क करें

कीवा इंडस्ट्रीज

वेबसाइट: www.kevaind.org

धन्यवाद